



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 456 राँची, शुक्रवार

5 आषाढ, 1937 (श०)

26 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

19 जून, 2015

संख्या: 03नि०-92/2011 रा०नि०आ० 1541 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त

सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्य्यों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, सिमडेगा के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekd	ftyk	fuokpu {ls-	uke ,oairk	dlj.k
1	2	3	4	5
1	fl eMxk	XXI fl eMxk@01&djMx	tfl Urk ydMk] xte&>j&] i k&gBek] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
2		XXI fl eMxk@01&djMx	yhyh vuhrk , Ddk] xte&[kjokVkyh] i k&djMx] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
3		XXI fl eMxk@02&dj l b]	veu [k.l] xte&xkj kj t kj] eka>kVkyh] i k&xkj kj t kj] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
4		XXI fl eMxk@02&dj l b]	MfoM frdh] xte&fl j/kk/kVkyh] i k&dj l b] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

5	XXI fl eMxk@02&djl bz	epno eka-hj xte&<k-tkj i k&Vj j] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
6	XXI fl eMxk@03&cksyck	jkosy ydMh] xte&l el jk tVkvsh] i k&l el jk] Fkkuk&cksyck] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
7	XXI fl eMxk@04&BBbVkaaj	ehjk ujkuh ykck] xte&l yxki kd] i k&dkj kfe; k] Fkkuk&BBbVkaaj] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
8	XXI fl eMxk@04&BBbVkaaj	jdk fdMh] xte&nocgj fxUMjk] i k&nocgj] Fkkuk&BBbVkaaj] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
9	XXI fl eMxk@05&fl eMxk	i kpkku l jhu] xte&l jbi kuh] i k&Qyokj Vkaaj] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
10	XXI fl eMxk@05&fl eMxk	y{ehukFk ykjj] xte&ckukchj] i k&Vj j] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
11	XXI fl eMxk@06&ikdjVkaaj+	vfurk , Ddk] xte&dmlnMhg] i k&dmlnMhg] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
12	XXI fl eMxk@06&ikdjVkaaj+	vuqk fdMh] xte&xkBkbzVkaaj %yg: Vshh] i k&ikdjVkaaj] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
13	XXI fl eMxk@06&ikdjVkaaj+	xkjsh fdMh] xte&vkl ucMh] i k&dmlnMhg] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA
14	XXI fl eMxk@07&dksyfcjk	eukjek noh] xte&ckcdok] i k&ckajke] Fkkuk&dksyfcjk] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djuseavl Qy jgA

15		XXI fl eMxk@07&dksyfcjk	n'kjFkh dēkjh xte\$ i k&ypjx< } Fkkuk&dksyfcjk] ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
16		XXI fl eMxk@10&ckuks	MfoM Hkat j] xte&cknyk] i k&ckdh] Fkkuk&ckuk} ftyk&fl eMxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jKT; fuokpu vk; Or ds vkns k l }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jKT; fuokpu vk; ks]

>kj [k.M] jkph A
